

St. Jude's Global School & Jr. College

ANNUAL EXAMINATION 2019 - 2020

Grade: VIII

HINDI

Max. Marks : 80
Time : 3hrs

खंड क

I. निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिये:-

हमारी बहुत सी समस्याएँ बिना विचारे कार्य करने का परिणाम होती हैं। बिना विचारे कार्य करने से हम सदा चिंतित एवं अवसन्न होकर अकथनीय कष्टों से अपने जीवन को अभिपूरित कर लेते हैं। अविचारित काम करके हम मन ही मन पछताते रहते हैं किंतु उसका कोई लाभ नहीं होता। कभी कभी अविचारित कार्यों के दुष्परिणामों का दुष्प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। किंतु दुःख इस बात का है कि इसे कार्यों को करने से पहले मानव कभी यह अनुभव ही नहीं करता कि अविचारित कार्य का दुष्परिणाम उसके लिये विनाशक हो सकता है। विचारपूर्वक कार्य करने वाला ही यह जान सकता है कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक रहने से ही मानव कर्म के साथ जान या बुद्धिका मेल बैठता है और परिणामस्वरूप अविचारित कर्म के विनाशक परिणामों से बच जाता है। इसलिए सुविचारित कर्म करना ही मानव का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। इसी के आधार पर जीवन को सम्पूर्ण, सबल और प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

1. अविचारित कार्य करने के क्या परिणाम होते हैं ? (2)
2. अविचारित कर्म के विनाशक दुष्परिणामों से कैसे बचा जा सकता है ? (2)
3. सुविचारित कर्म करने से क्या क्या लाभ होते हैं ? (2)
4. इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है और क्यों ? (2)
5. मानव का सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य क्या है ? (1)
6. हमारी बहुत सी समस्याओं का कारण क्या होता है ? (1)

खण्ड ख

व्याकरण

II. उत्तर दो

1. क्रिया किसे कहते हैं? (1½)
2. संजा किसे कहते हैं ? (1½)
3. विभक्ति प्रत्यय क्या क्या हैं ? (1)
4. धातु किसे कहते हैं ? (1)
5. सर्व नाम किसे कहते हैं ? (1)
6. कारक किसे कहते हैं ? (1)
7. संधि किसे कहते हैं? (1)
8. भाववाचक संजा के दो उदाहरण लिखिए ? (1)

III. जोड़कर लिखो

(½X3= 1½)

1. हम + का
2. वे + ने
3. तू + का

IV. अलग करके लिखिए

(½X3=1½)

1. उसका ,उनका .उन्होंने

V. हिंदी में अनुवाद कीजिए

(1X4=4)

1. They will return today at night
2. Neena will sing a song
3. Let them come inside

खण्ड ग

पाठ्यपुस्तक

VI. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए

(2X9=18)

1. बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था ?
2. लेखक ने आलम आरा की तुलना किस फैंटसी फिल्म से की हैं ?
3. द्वारिका जाने से पहले सुदामा कैसे घर में रहते थे ?
4. आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए ?
5. बच्चा सारा दिन क्या करते थे ?
6. बालक श्रीकृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए ?
7. आलम आरा फिल्म के संगीत में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था ?
8. चिड़िया की चोंच में क्या हैं ? वह इससे क्या करेगी ?
9. गवरइया और गवरा के बीच किस बात पर बहस हुई?

VII. निम्नलिखित प्रश्न 80 -100 शब्दों में उत्तर दीजिए

(5X2=10)

1. कामचोर कहानी का सन्देश लिखो
2. आप के विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे ?

खण्ड - घ

VIII. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 50 -60 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए

(6X1=6)

1. प्लास्टिक की दुनिया
2. कृत्रिम पदार्थ प्रयोग
3. गुण- अगुण
4. हानियाँ-जिम्मेदारी

IX. आप के विद्यालय में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हैं ,जिसके कारण छात्रों को असुविधा होती हैं।

विद्यालय में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। (5X1=5)

X. बंदर छाप झाड़ू बनाने वाली कंपनी के लिए विज्ञापन पत्र तैयार कीजिए (5X1=5)

XI. आप के विद्यालय में एक कवी सम्मलेन का आयोजन किया जाने वाला हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को इस अवसर पर विद्यालय में आने के लिए लगभग 30 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए (5X1=5)

XII. फिल्म पर दो मित्रों के परस्पर संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए (5X1=5)
